



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 186 राँची, शुक्रवार,

1 मार्च, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

27 फरवरी, 2019

संख्या-5/आरोप-1-103/2018-952 (HRMS)-- श्री बिनय कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला गढ़वा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के विरुद्ध अतिक्रमणकारी को लाभ पहुँचाने, लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत प्रक्रिया को बेवजह लंबा चलाने एवं लापरवाही बरतने संबंधी आरोप उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-908/रा०, दिनांक 17.07.2018 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6193, दिनांक 13.08.2018 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा पत्रांक-727, दिनांक 04.10.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8144, दिनांक 01.11.2018 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1590/रा०, दिनांक 04.12.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, पलामू के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि परिवादी श्री इन्द्रजीत पासवान के द्वारा

मामले की शिकायत लोकायुक्त महोदय के समक्ष करने के उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, अतः अतिक्रमण वाद के निष्पादन में विलम्ब के लिए श्री कुमार भी दोषी है।

अतः समीक्षोपरांत श्री बिनय कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला-गढ़वा) तत्कालीन अंचल अधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No	Employee Name G.P.F No	Decision of The Competent authority
1	2	3
1	BINAY KUMAR JHK/JAS/232	श्री बिनय कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला-गढ़वा) के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
